



1- दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा-

अवगत कराना है कि दिनांक 09-06-2022 को वादिनी निवासिनी थाना असमौली क्षेत्रांतर्गत जनपद सम्भल ने थाना पाकबड़ा पर अभियुक्त द्वारा वादिनी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ गलत काम करने, अभियुक्त फकरुद्दीन पुत्र रफयुददीन द्वारा वादिनी के साथ छेड़छाड़ करने, नवाब पुत्र सफदर निवासी सफातनगर थाना असमौली जिला सम्भल द्वारा गलत काम करने का प्रयास करने, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते हुए घर से निकाल देने के सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0- 162/22 धारा 376, 354, 511, 323, 506 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में आज दिनांक 31.08.2022 को निरीक्षक अपराध श्री संदीप राज सिंह, थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिस बल वांछित अभियुक्त नवाब अली पुत्र सफदर अली निवासी सफातनगर थाना असमौली जिला सम्भल को गिरफ्तार किया गया है। विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 511, 376, 354 भादवि का विलोपन व धारा 376डी की वृद्धि की गयी है।

2- गांजा सहित तस्कर गिरफ्तार, थाना पाकबड़ा-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31-08-2022 को उ0नि0 श्री रोहित कुमार, थाना पाकबड़ा द्वारा मय हमराही पुलिसबल मासूम अली पुत्र वाहिद हुसैन निवासी कस्बा व थाना पाकबड़ा जनपद मुरादाबाद को 5 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना पाकबड़ा पर मु0अ0सं0- 263/22 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

3- अपहरण का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना ठाकुरद्वारा-

अवगत कराना है कि दिनांक 29-08-2022 को वादी निवासी थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना ठाकुरद्वारा पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना ठाकुरद्वारा पर मु0अ0सं0 414/22 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त के क्रम में दिनांक 30-08-2022 को उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार, थाना ठाकुरद्वारा द्वारा मय हमराही पुलिसबल वांछित अभियुक्त राहिल सैफी पुत्र मौ0 मतलूब निवासी ग्राम रामवाला शेखू थाना ठाकुरद्वारा मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अपहृता को बरामद कर लिया गया है।

4- अवैध शराब सहित 3 गिरफ्तार, थाना कांठ-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31-08-2022 को उ0नि0 श्री मदनपाल सिंह, थाना कांठ व आबकारी निरीक्षक श्री जयप्रकाश सिंह, जनपद मुरादाबाद द्वारा मयहमराही पुलिसबल 1 भारती, 2 उर्वशी, व 3 कोमल निवासीगण आशापुर कालोनी थाना कांठ को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना कांठ पर मु0अ0सं0- 335/2022 धारा- 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

5- नशीले इन्जेक्शन सहित 01 गिरफ्तार, थाना नागफनी-

अवगत कराना है कि आज दिनांक 31-08-2022 को उ0नि0 श्री कृष्ण पाल, थाना नागफनी द्वारा मय हमराही पुलिसबल अयान पुत्र मोबीन निवासी थाना नागफनी मुरादाबाद को 15 नशीले इन्जेक्शन सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना नागफनी पर मु0अ0सं0-135/22 धारा- 8/22 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

6- अवैध शराब सहित 01 गिरफ्तार, थाना भोजपुर-

अवगत कराना है कि दिनांक 30-08-2022 को उ0नि0 श्री सुधीर कुमार थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल रघुवीर पुत्र बुद्धाराम निवासी ग्राम मिलक पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 281/2022 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

7- अवैध शराब सहित 01 गिरफ्तार, थाना भोजपुर-

अवगत कराना है कि दिनांक 31-08-2022 को उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल सुरेश पुत्र नरोत्तम सिंह निवासी ग्राम देवीपुरा का मझरा थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 10 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 283/2022 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

8- अवैध शराब सहित 01 गिरफ्तार, थाना भोजपुर-

अवगत कराना है कि दिनांक 31-08-2022 को उ0नि0 श्री चन्द्रशेखर यादव थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिसबल आशीष पुत्र छोटे सिंह निवासी मौहल्ला सिद्धार्थनगर धर्मपुर आंगा कस्बा व थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को 20 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 282/2022 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

9- अवैध कच्ची शराब सहित 01 गिरफ्तार, थाना सिविल लाइन्स-

अवगत कराना है कि दिनांक 31-08-2022 को उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह, थाना सिविल लाइन्स द्वारा मय हमराही पुलिसबल विपिन पुत्र स्व0 धर्मपाल निवासी आदर्श कालोनी थाना सिविल लाइन्स जनपद मुरादाबाद को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन्स पर मु0अ0सं0- 729/2022 धारा- 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है।